



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

21 अग्रहायण 1945 (श0)  
(सं0 पटना 1001) पटना, मंगलवार, 12 दिसम्बर 2023

---

गृह विभाग

घोषणा  
5 दिसम्बर 2023  
प्रपत्र सं0-1

(बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 की धारा 5 एवं बिहार विशेष न्यायालय नियमावली, 2010 के नियम 7 के अधीन)

सं० बी0/आ0अ0ई0-01/2023/13866—चूंकि यह अभिकथित किया गया है कि श्री अमरेश राम, पिता-स्व० मालिक चन्द्र राम, सा०-रामपुर, थाना-जमहौर, जिला-औरंगाबाद, वर्तमान पता-वार्ड नं०-13, ब्रह्म स्थान, मिनी बिगहा, औरंगाबाद ने बिहार राज्य में समाहरणालय, औरंगाबाद के अन्तर्गत जिला कल्याण कार्यालय में वर्तमान प्रधान लिपिक का पद धारण करते हुए अन्य के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 की उप धारा (1) के खंड (ई) के अधीन अपराध किया और मामले की जांच आर्थिक अपराध थाना कांड सं०-13/2022, दिनांक-07.03.2022 धारा 13 (2) सह पठित धारा 13(1)(ई) संशोधित धारा-13(1)(बी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में की गई है;

और चूंकि अभिलेख में उपलब्ध सुसंगत सामग्री की छानबीन करने पर राज्य सरकार की राय है कि श्री अमरेश राम, पिता-स्व० मालिक चन्द्र राम, सा०-रामपुर, थाना-जमहौर, जिला- औरंगाबाद, बिहार, वर्तमान प्रधान लिपिक, समाहरणालय, औरंगाबाद, बिहार, जिसने भ्रष्ट साधनों का सहारा लेकर अन्य के साथ अपने आय के ज्ञात स्रोत से अननुपातिक संपत्ति संचित किया है, पर प्रथम दृष्टया केस बनता है;

और चूंकि सरकार को यह आवश्यक और समीचीन प्रतीत होता है कि उक्त अपराधियों पर विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम 5, 2010) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाए;

इसलिए, अब विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अपराध का निपटारा विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के अधीन किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
के० सेंथिल कुमार,  
सरकार के प्रधान सचिव।

5 दिसम्बर 2023

सं० बी०/आ०अ०ई०-०१/२०२३/१३८६६ का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-३४८ के खण्ड (३) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
के० सेंथिल कुमार,  
सरकार के प्रधान सचिव।

5<sup>th</sup> December 2023

### **FORM No. 1**

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act, 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules, 2010)

No. बी०/आ०अ०ई०-०१/२०२३/१३८६६—WHEREAS, It was alleged that **SHRI AMRESH RAM, S/O-Late Malik Chand Ram, Vill.- Rampur, P.S.-Jamhaur, Distt.-Aurangabad, A/P- Ward N0.-13, Brahmasthan, Mini Bigha, P.S.+Distt.-Aurangabad, Bihar** while holding the post of the **Head Clerk, District Welfare Office, Collectorate, Aurangabad, Govt. of Bihar (at present)** and serving in different capacities under Government of Bihar committed an offence alongwith others accused under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Economic Offences P.S. Case No. **13/2022**, dated **07.03.2022**, under section 13(2) read with 13(1)(e) and amended section 13(1)(b) of the Prevention of Corruption Act, 1988.

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of commission of above mentioned offence by the said **SHRI AMRESH RAM, S/O-Late Malik Chand Ram, Vill.- Rampur, P.S.-Jamhaur, Distt.-Aurangabad**, the then **Head Clerk, District Welfare Office, Collectorate, Aurangabad, Govt. of Bihar** and others accused who have accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means;

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offenders should be tried by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence shall be dealt with under the Special Courts Act, 2009.

By order of the Governor of Bihar,  
K. Senthil Kumar,  
Principal Secretary to the, Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1001-571+100-डी०टी०पी०

Website: <http://egazette.bih.nic.in>